

-:प्रेस नोट दिनांक 11.02.2021:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली

थाना फरीदपुर #bareillypolice द्वारा कस्बा फरीदपुर के मोहल्ला मिर्धान में हुई डकैती की घटना का हुआ सफल अनावरण घटना कारित करने वाले सभी डकैत गिरफ्तार तथा घटना में लूटी गये जेवरात व नकदी 2 लाख रुपये बरामद:-

घटना का संक्षिप्त विवरण – यह कि कस्बा फरीदपुर के मोहल्ला मिर्धान में आरिफ के घर पर डकैती की घटना हुई जिसके सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर मु0अ0सं0 798/19 धारा 395 भा.द.वि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री धनन्जय सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही थी, उनके थाना फरीदपुर से स्थानान्तरण हो जाने पर थाना फरीदपुर पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर द्वारा उक्त घटना की विवेचना को ग्रहण किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अभियोग की घटना का शीघ्र सफल अनावरण कर उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना में गये माल की बरामदगी हेतु विवेचक श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी को निर्देशित किया गया। उक्त अभियोग की घटना की विवेचना श्री राजकुमार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली महोदय के कुशल नेतृत्व में तथा श्री आलोक अग्रहरि क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के निकट निर्देशन में सम्पादित की गयी। अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अभियोग का घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना कारित करने वाले सभी अभियुक्तों/डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा घटना में लूटे गये जेवरात, धनराशि आदि की बरामदगी अभियुक्तों के कब्जे से की गयी। घटना करने वाले डकैतों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही भी स्थापित की जा रही है।

अभियोग के अनावरण हेतु गठित टीम का विवरण:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर जनपद बरेली
2. श्री जगत सिंह उ0नि0 थाना फरीदपुर जनपद बरेली
3. का0 2057 गौरव पोसवाल थाना फरीदपुर जनपद बरेली
4. का0 2127 भुवनेश शर्मा थाना फरीदपुर जनपद बरेली
5. का0 2655 अरविन्द बालियान थाना फरीदपुर जनपद बरेली
6. का0 251 अनिपाल थाना फरीदपुर जनपद बरेली
7. आ0चालक रामकुमार सिंह थाना फरीदपुर जनपद बरेली

घटना कारित करने वाले अभियुक्तों का विवरण:-

1. दानवीर पुत्र बिहारीलाल नि.ग्राम परसोना खलीलपुर गौटिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर
2. कल्लू उर्फ धर्मवीर पुत्र छोटेलाल नि.मो0 महमद जलालनगर थाना सदरबाजार जनपद शाहजहांपुर
3. नन्हेपाल उर्फ रतिराम पुत्र श्री मूलचन्द नि. महमूदपुर थाना दियोरिया कला जिला पीलीभीत
4. लालू उर्फ राजेश पुत्र रामभरोसे किसान निवासी मो0 महमद जलालनगर थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
5. राजीव जाटव पुत्र मुरारीलाल जाटव नि.गौसनगर थाना जलालाबाद शाहजहांपुर
6. आनन्द जाटव उर्फ योगेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार गौतम नि.मो0 गौसनगर थाना जलालाबाद शाहजहांपुर हाल निवासी मो0 फैहजुल्लागंज निकट सीताराम मन्दिर मकान नं0 537 ख 5/40 थाना मडियावा जिला लखनऊ
7. कमल यादव पुत्र अरविन्द यादव नि.नया गांव गुलडिया थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर हाल पता ब्लाक नं0 80 मकान नं0 1268 काशीराम कालौनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर
8. पप्पू उर्फ आरिफ पुत्र मिट्टू बक्श निवासी तुलसीनगर अहजाजनगर गौटिया नाई बाली गली थाना बारादरी बरेली
9. राजू उर्फ रतनेश पुत्र श्री रामभरोसे सिंह निवासी ग्राम गजूआ खेड़ा थाना पिहानी जनपद हरदोई

बरामदगी का विवरण:-

- | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--------------------|
| 1. दो लाख रुपये नकद | 2. एक गले का पैण्डल | 3. दो जोड़ी झूमर | 4. दो माथे की बिंद |
| 5. चार जोड़ी झुमकी | 6. दो अंगूठी | 7. मांग टीका | 8. पांच जोड़ी पायल |
| 9. एक इन्डेक्सन चूल्हा | 10. एक बैग पिट्टू काला | 11. घटना में प्रयुक्त वाहन महिन्द्रा पिकप गाडी | |

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली।